



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]
No. 15]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 27, 1983/फाल्गुन 8, 1904
NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 27, 1983/PHALGUNA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1983

आ०अ० 28(अ) :—निर्वाचन आयोग ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(iii), में प्रकाशित अधिसूचना सं० 464/आगम-लो०स०/83(1), तारीख 12 जनवरी, 1983 द्वारा असम राज्य से लोक सभा में रिक्तियों को पूरने के लिए असम राज्य में 4-घुम्री, 5-क कोक्राझाड़ (अ०ज०जा०), 6-बारपेटा, 7-गौहाटी, 8-मंगलदोई, 9-नेजपुर, 10-नौगाँव, 11-कलियाबाँर, 12-जोरहट, 13-डिब्रुगढ़ तथा 14-लखिमपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदाताओं को निर्वाचित करने की अपेक्षा की गई थी ;

और, निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अधीन जारी की गई और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3(iii) तारीख 12 जनवरी, 1983 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं० 464/आगम-लो०स०/83(2) द्वारा उक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचन खण्डों में 14, 17 और 20 फरवरी, 1983 को मतदान की तारीख के रूप में और तारीख 28 फरवरी, 1983 को उस तारीख के रूप में नियत किया था जिनके पूर्ण निर्वाचन पूरे कर लिए जाएंगे ;

और, 4-घुम्री, 7-गौहाटी, 11-कलियाबाँर और 13-जोरहट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में सभी प्रकार से निर्वाचन पूरे करा लिये गए हैं और सम्बन्धित रिटनिंग आफिसरों द्वारा निर्वाचनों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं ;

और, असम राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर ने आयोग को रिपोर्ट की है कि 7-गौहाटी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सभा खण्ड 50

पालमबाड़ी और 8-मंगलदोई संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सभा खण्ड 57-रंगिया में मतदान तारीख 20 फरवरी, 1983 (रविवार) अर्थात् इस प्रयोजनार्थ नियत तारीख का नहीं करवा जा सका और उक्त सभा खण्डों में मतदान आयोग की पूर्ण अनुमति से तारीख 21 फरवरी, 1983 (सोमवार) को कराया गया था ;

और, मुख्य निर्वाचन आफिसर ने आयोग को यह रिपोर्ट भी की है कि 6-बारपेटा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सभा खण्ड 32-बोंगईगाँव, 34-अमथपुरी उत्तर और 35-अमथपुरी दक्षिण (अ०जा०), और 42-नाटा-छातकट्टी, 8-मंगलदोई संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सभा खण्ड 65-कलाई थाय, 66-मिपामाड़ और 67-मंगलदोई (अ०जा०), 9-नेजपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सभा खण्ड 72-बड़छन्ना, 75-सुनिया, 76-विस्वानाथ 77-बेहली और 78-गाहपुर और 13-डिब्रुगढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सभा खण्ड 118-दुलियाजन, 119-टिन्हाबाग और 120-राहरकटिया के मतदान केंद्रों और 14-लखिमपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सभा खण्ड 99-मझली (अ०ज०जा०) और 5-कोक्राझाड़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सभा खण्ड 33-बिज्जी, 9-नेजपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सभा खण्ड 71-धेकियाजुली और 10-नौगाँव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभा खण्ड 81-लहुरीघाट के कुछ विनिर्दिष्ट मतदान केंद्रों में मतदान को उक्त अधिनियम का धारा 57 के उपबन्धों के अन्तर्गत स्थगित किया गया था और उक्त स्थगित मतदान, सम्बंधित निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुमानित स्थिति होने के कारण अभी तक नहीं कराया गया है और कदम उठाया गया कि निर्वाचन पूरे नहीं कराये जा सके ;

और, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त चारों में वर्णित निर्वाचन-क्षेत्रों में असामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए

स्थगित मतदान कराना और इन निर्वाचन-क्षेत्रों में तारीख 28 फरवरी, 1983 अर्थात् इस प्रयोजनार्थ नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन पूरे कराना सम्भव नहीं है ;

अतः अब, संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधिसभ अधिनियम, 1951 की धारा 153 और 30 के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निर्वाचन आयोग एम्बुड्गार अपनी तारीख 12 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं० 464/आसाम-लो०सं०/83(1) और सं० 464/आसाम-लो० सं०/83(2) में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :—

(क) आयोग की अधिसूचना सं० 464/आसाम-लो०सं०/83(1) के अन्तिम पैरा में, तारीख "28 फरवरी, 1983" के स्थान पर तारीख "30 जून, 1983 (बृहस्पतिवार)" प्रतिस्थापित की जाए; और

(ख) (i) आयोग की अधिसूचना सं० 464/आसाम-लो०सं०/83(2) में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद्र 7 और 8 के सामने 50-पालाशरी और 57-रंगिया सभा खण्डों के बारे में स्तम्भ 3 में यथा त्रिनिटिड तारीख "20 फरवरी, 1983 (रविवार)" के स्थान पर, तारीख "21 फरवरी, 1983 (मानवार)" रखा जाय ; और

(ii) आयोग की अधिसूचना सं० 464/आसाम-लो०सं०/83(2) के विद्यमान खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाय ;

(i) 28 फरवरी, 1983 (मंगलवार) का उन तारीख के रूप में निव्वन करता है जिसमें पूर्व 4-धुब्री, 7-कोकुराज, 11-कालिबोर तथा 12-जोरहाट, समस्त निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन समाप्त कर दिया जाय; और

(ii) 30 जून, 1983 (बृहस्पतिवार) का उन तारीख के रूप में निव्वन करता है जिसमें पूर्व 5-कालिबोर (अ०सं०ज०), 6-बारपेटा, 8-मंगलदोई, 9-तेजपुर, 10-नोवगोंग, 13-दिब्रुगढ़ और 14-लखिम्पुर संसदाय निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन समाप्त कर दिया जाय ।"

[सं० 464/आसाम-लो०सं०/83]

आदेश से,

आर० पी० भल्ला, सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 1983

O.N. 28(E).—Whereas the Election Commission by its Notification No. 464/AS-HP/83(1) dated 12th January, 1983 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(iii) on 12th January, 1983 called upon 4-Dhubri, 5-Kokrajhar (ST), 6-Barpeta, 7-Gauhati, 8-Mangaldoi, 9-Tezpur, 10-Nowgong, 11-Kaliabor, 12-Jorhat, 13-Dibrugarh and 14-Lakhimpur parliamentary constituencies in the State of Assam to elect members to fill the vacancies in the House of the People from the State of Assam before the 28th February, 1983;

And whereas the Election Commission by its notification No. 464-AS-HP/83(2) dated 12th January, 1983 issued under section 30 of the Representation of the People Act, 1951 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,

Section 3(iii) on 12th January, 1983, appointed the 14th, 17th and 20th February, 1983 as the dates of poll in various assembly segments of the said parliamentary constituencies and 28th February, 1983 as the date before which the elections shall be completed;

And whereas the elections in 4-Dhubri, 7-Gauhati, 11-Kaliabor and 12-Jorhat parliamentary constituencies have been completed in all respects and the results of elections declared by the respective Returning Officers;

And whereas the Chief Electoral Officer of the State of Assam reported to the Commission that the poll in 50-Palasbari assembly segment of 7-Gauhati parliamentary constituency and 57-Rangiya assembly segment of 8-Mangaldoi parliamentary constituency could not be taken on the 20th February, 1983 (Sunday) i.e. the date appointed for the purpose and the poll in the said assembly segments was taken on the 21st February, 1983 (Monday) with the prior approval of the Commission;

And whereas the Chief Electoral Officer has further reported to the Commission that the poll at all the polling stations of 32-Bongaigaon, 34-Abhayapuri North, 35-Abhayapuri South (SC) and 42-Patacharkuchi assembly segments of 6-Barpeta parliamentary constituency, 65-Kalaigaon, 66-Sipajhar and 67-Mangaldoi assembly segments of 8-Mangaldol parliamentary constituency, 72-Barchalla, 75-Sootea, 76-Biswanath, 77-Behali and 78-Gohpur assembly segments of 9-Tezpur parliamentary constituency, and 118-Dulaiajan, 119-Tingkhong and 120-Naharkatia assembly segments of 13-Dibrugarh parliamentary constituency and 99-Majhli (ST) assembly segment of 14-Lakhimpur parliamentary constituency and at certain specified polling stations in 33-Bijni assembly segment of 5-Kokrajhar parliamentary constituency, 71-Dhekiajuli assembly segment of 9-Tezpur parliamentary constituency and 81-Laharighat assembly segment of 10-Nowgong parliamentary constituency was adjourned under the provisions of section 57 of the said Act and the said adjourned poll has not so far been taken owing to the abnormal situation prevailing in the constituencies concerned and consequently the elections could not be completed so far;

And whereas the Election Commission is satisfied that in view of the situation prevailing in the constituencies mentioned in the foregoing paragraph it is not possible to hold the adjourned poll and complete the elections in these constituencies before the 28th February, 1983 i.e. the date fixed for the purpose;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 324 of the Constitution, section 153 and 30 of the Representation of the People Act, 1951 read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission hereby makes the following amendments in its Notifications Nos. 464/AS-HP/83(1) and 464/AS-HP/83(2) dated 12th January, 1983, namely :—

(A) In the last para of the Commission's notification No. 464/AS-HP/83(1), for the date "28th February, 1983", the date "30th June, 1983 (Thursday)" shall be substituted; and

(B) (i) In column 2 of the Table appended to the Commission's notification No. 464/AS-HP/83(2), for the date "20th February, 1983 (Sunday)" mentioned against items 7 and 8 in respect of 50-Palasbari and 57-Rangiya assembly segments as specified in column 3 thereof, the date "21st February, 1983 (Monday)" shall be substituted; and

(ii) For the existing clause (2) of the Commission's notification No. 464/AS-HP/83(2), the following clause shall be substituted :

"(i) the 28th February, 1983 (Monday) as the date before which the election shall be completed in 4-Dhubri, 7-Gauhati, 11-Kaliabor and 12-Jorhat parliamentary constituencies; and

(ii) the 30th June, 1983 (Thursday), as the date before which the elections shall be completed in Kokrajhar (ST), 6-Barpeta, 8-Mangaldoi, 9-Tezpur, 10-Nowgong, 13-Dibrugarh and 14-Lakhimpur parliamentary constituencies."

[No. 464/AS-HP/83]

By order,

R. P. BHALLA, Secy.,
Election Commission of India.